



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 743) पटना, शुक्रवार, 16 सितम्बर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

अधिसूचना

8 फरवरी 2016

सं० 3725—लखीसराय जिलान्तर्गत मुरली पहाड़ी नई बाजार, पो0+थाना— लखीसराय स्थित वनखण्डी हनुमान मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इस न्यास का निबंधन सं० 4381/15 है।

इस न्यास के संबंध में बिहार विधान परिषद् के तारांकित प्रश्न के आलोक में पर्षद् द्वारा न्यास का स्थल जांच कराया गया। पर्षद् के निरीक्षक के प्रतिवेदन में इसे ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर बताया गया। अतः ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्व से जुड़े होने के कारण पर्षद् में इसे निबंधित करते हुये समिति गठन हेतु अंचल पदाधिकारी, लखीसराय से 9 या 11 सदस्यों के नाम की मांग की गयी, जिसके आलोक में अंचल पदाधिकारी, लखीसराय ने अपने पत्र सं० 06, दिनांक 02/01/16 द्वारा 11 सदस्यों का नाम भेजा है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालन के लिए न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत में धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं०- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए वनखण्डी हनुमान मंदिर मुरली पहाड़ी नई बाजार, पो0+थाना— लखीसराय, जिला— लखीसराय के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “वनखण्डी हनुमान मंदिर न्यास योजना, मुरली पहाड़ी नई बाजार, पो0+थाना—लखीसराय, जिला—लखीसराय” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “वनखण्डी हनुमान मंदिर न्यास समिति, मुरली पहाड़ी नई बाजार, पो0+थाना—लखीसराय, जिला—लखीसराय” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा ।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमिता/हस्तारित भूमि "यदि कोई हो तो", उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिकवियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायें या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
12. न्यास समिति बैठक करके तीन माह के अन्दर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्यगण के पदनाम (गठित न्यास समिति में से) चयनित कर पर्षद में अनुमोदन के लिए भेजेगी ।

**पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:-**

- (1) श्री विपुल कुमार भारद्वाज ग्राम- कार्यानंद नगर, लखीसराय
- (2) श्री प्रेम साव पिता- दुर्गासाव, ग्राम- बाजार समिति, लखीसराय
- (3) श्री राम नरेश सिंह (पूर्व प्राचार्य राजकीय हसनपुर उच्च विद्यालय), लखीसराय
- (4) श्रीमति सुशीला देवी पति- दिलीप रजक- लाली पहाड़ी, लखीसराय
- (5) श्री उमेश साव पिता- अर्जुन साव- कवैया रोड, लखीसराय
- (6) श्री राहुल कुमार पिता- जयराम सिंह- बाजार समिति, लखीसराय
- (7) श्री हिमांशु कुमार पिता- राम स्वरूप यादव, बाजार समिति, लखीसराय
- (8) श्री अमरनाथ गुप्ता पिता- शम्भु नाथ गुप्ता- बाजार समिति, लखीसराय
- (9) श्री प्रदीप कुमार दास पिता- श्री त्रिकेश चंद दास, बाजार समिति, लखीसराय
- (10) श्री राम किशोर सिंह पिता- परमानंद सिंह, हसनपुर, लखीसराय
- (11) श्री संटु कुमार पिता- अशोक गुप्ता, बाजार समिति, लखीसराय
13. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी ।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 743-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>